

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्थापना-II

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक 22-02-2023 :


परिपत्र

विषय : अनुबंध के आधार पर स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में परामर्शदाता की नियुक्ति।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अनुबंध के आधार पर परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति हेतु सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। परामर्शदाता की तैनाती स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में होगी। परामर्शदाता की नियुक्ति से संबंधित विस्तृत नियमें व शर्तें संलग्न हैं। योग्यता-मानदंड व अन्य विवरण निम्न प्रकार से हैं:

1.	अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए जाने वाले परामर्शदाता की संख्या	4
2.	आयु सीमा	आवेदन की तारीख को अधिकतम वर्ष 62
3.	कार्यस्थल	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
4.	संविदा की अवधि	एक वर्ष
5.	पात्रता	अनुलग्नक के अनुसार
6.	कार्यभार	

- इच्छुक व्यक्ति जो तत्काल रूप से पद को संभालने की स्थिति में हैं वे इस परिपत्र के जारी होने के एक महीने के अन्दर सम्बंधित दस्तावेजों (PPO) के साथ संलग्न प्रारूपों में अपना विवरण “अवर सचिव(प्रशासन), कमरा नंबर-330 ‘सी-विंग’, निर्माण भवन” को संबोधित करते हुए “सी. आर. अनुभाग, गेट नंबर-6, ग्राउंड फ्लोर, निर्माण भवन, नई दिल्ली” में जमा करा दें।
- हिंदी अनुवाद में किसी भी विसंगति की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण का पालन किया जाएगा।


 (राजीव जायसवाल)
 अवर सचिव, भारत सरकार
 टैलीफैक्स: 23061323

- विभाग की वेबसाइट में परिपत्र के प्रकाशन हेतु एन.आई.सी. को प्रतिलिपि
- ई ऑफिस नोटिस बोर्ड
- नोटिस बोर्ड
- अवर सचिव (सीएस.आई.) (ध्यानाकर्षण: श्री सुनील कुमार), लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली - डीओपीटी की वेबसाइट पर परिपत्र प्रकाशित करने के लिए।

अनुलग्नक -I

क्र.सं.	कार्यभार (अवधि – एक वर्ष)	पात्रता
1	<p>आन्तरिक वित्त प्रभाग के निम्नलिखित मामलों में सहायता करना</p> <p>मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रम प्रभागों से प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों की जांच में अधिकारीयों की सहायता करना</p>	<p style="text-align: center;">4 पद</p> <p>अवर सचिव/ अनुभाग अधिकारी या समकक्ष के स्तर पर सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारी जिनके पास भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय/ विभाग के कार्यक्रम प्रभाग में कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव हो जहां अधिकारी ने केंद्रीय क्षेत्र या मंत्रालय / विभाग की केंद्र प्रायोजित योजनाओं को संभाला हो अधिक अनुभव वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी</p>

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु नियम व शर्तेः-

1	परामर्शदाता को नियंत्रण अधिकारी द्वारा सौंपे जाने वाले कार्यों को करना होगा।
2	सामान्य कार्यालयी घंटे सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 5.30 बजे से सायं 9.00बजे तक होंगे जिसमें अपराह्न मिनट का लंच ब्रेक होगा। 30 बजे तक 1.30 बजे से 1.00
3	परामर्शदाता एक वर्ष की नियुक्ति अवधि के दौरान सेवा के हर पूरे महीने के लिए 1.5 दिन की छुट्टी का हकदार होगा जिसके लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी।
4	विशेष परिस्थितियों में परामर्शदाता को छुट्टियों में कार्य के लिए बुलाया जा सकता है या सामान्य कार्यालयी घंटों से अधिक समय के लिए रोका जा सकता है।
5	संविदात्मक नियुक्ति अधिकतम एक वर्ष के लिए है जिसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।
6	परामर्शदाता को समेकित पारिश्रमिक का भुगतान टीडीएस आदि के अधीन पेंशन को घटाकर अंतिम लिए गए वेतन के फार्मूले के अनुसार किया जाएगा। माह में किए जाने वाले कार्य के पारिश्रमिक का भुगतान अगले माह में किया जाएगा। कार्यालयी दौरे करने पर टीएडीए को छोड़कर अन्य कोई भत्ता / देय नहीं होगा। टीएडीए पात्रता वही होगी जिसके लिए वे सेवानिवृत्त होते समय पात्र थे।
7	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पास परामर्शदाता की सेवाओं की जांचका समीक्षा करने/ अधिकार होगा।
8	वह अपने दायित्वों को पूरे कौशलक्षमता व किफायत के साथ करें ,परिश्रम ,गो।
9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उन्हें कोई भी चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। पारिश्रमिक में चिकित्सा संबंधी लागत को कवर किया माना जाता हैकोई हो। यदि ,
10	मंत्रालय यात्रा सहित उन्हें कार्य करते समय या उसके अलावा होने वाली किसी भी हानि ,दुर्घटना , क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।/नुकसान
11	सेवाकाल के दौरानवो किसी भी व्यावसायिक के कार्यकलाप के निजी व्यापार में शामिल नहीं होंगे , का टकराव पैदा करें। जो सरकार से हित
12	वह सभी सरकारी जानकारी को गोपनीय रखेंगे और उपर्युक्त का उपयोग केवल कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य हेतु ही करेंगे।
13	सेवा को किसी भी पक्ष द्वारा एक माह के नोटिस दिए जाने के द्वारा समाप्त किया जा सकता है।

**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में परामर्शदाता की
नियुक्ति हेतु आवेदन प्रारूप**

आवेदित पद :

नामः

--

पिता का नामः

जन्म तिथिः

आधार संः

सेवानिवृत्त की तारीखः

अंतिम कार्यालय का नामः

अंतिम पदनामः

अंतिम आहरित वेतनः

पेंशनः

दूरभाष संः

मोबाइल नंबरः

ईमेल आईडीः-

मेलिंग पता:

स्थायी पता:

शैक्षिक अर्हता:

कार्य अनुभव (यदि आवश्यकता हो ,अलग से पेपर लगाएं)

संगठनसंस्थान/	अवधि	कार्य की प्रकृति	टिप्पणियां
	कब से	कब तक	

(हस्ताक्षर)

स्थानः

दिनांकः